



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 216-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 27, 2018 (PAUSA 6, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 दिसम्बर, 2018

**संख्या 16/139/2017-2IW.**— हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1974, (1974 का 29), की धारा 65 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, अधिसूचना संख्या 16/139/2017-2 IW, दिनांक 9 अक्टूबर, 2018, के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा नहर तथा जल-निकास (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, उपान्तिक शीर्ष में, “परिभाषा”, शब्द के स्थान पर “परिभाषाएं” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. उक्त नियमों में, नियम 7 में, “तिथि जिसको” शब्दों के बाद, “तथा स्थान जहां” शब्द रखे जाएंगे।
4. उक्त नियमों में, नियम 43 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
“ग्रामिणों की मांग विवरणी (खतौनी) तक पहुंचा धारा 65.— 43- ग्राम पटवारी के पास रखी मांग विवरणी (खतौनी), उन व्यक्तियों, जो जल प्रभारों के भुगतान के लिए दायी हैं, के निरीक्षण के लिए ऐसी तिथि, समय तथा स्थान पर, जो पटवारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, खुली होगी।”
5. उक्त नियमों में नियम 75 में, “दो रुपये” शब्दों के स्थान पर “दो सौ रुपये” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
6. उक्त नियमों में नियम 109 में, “तिथि तथा स्थान” शब्दों के स्थान पर, “तिथि, स्थान तथा समय”, शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
7. उक्त नियमों में, नियम 111 में, अन्त में, “और सम्मन के तामिल की पावती या तो लम्बरदार या चौकीदार इत्यादि से सत्यापित की जाएगी” शब्द जोड़े जाएंगे।
8. उक्त नियमों में, प्ररूप IV में, “19—से 19—” अंको, अक्षर तथा चिह्न के स्थान पर, “20—से 20—” अंक, चिह्न तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
9. उक्त नियमों में, प्ररूप V में, “19” अंको के स्थान पर, “20” अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10 उक्त नियमों में, प्ररूप VI में,—

- (i) दो बार आने वाले “19” अंको के स्थान पर, “20” अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
- (ii) “नहर स्टेशन” शब्दों के स्थान पर “मंडल नहर अधिकारी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुराग रस्तोगी,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग।

## HARYANA GOVERNMENT

### IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT

#### Notification

The 27th December, 2018

**No. 16/139/2017-2IW.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 65 of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974 (29 of 1974) and with reference to the Haryana Government, Irrigation and Water Resources Department, Notification No. 16/139/2017-2IW, dated the 9th October, 2018, the Governor of Haryana hereby makes following rules further to amend the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Rules, 2018.
2. In the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976 (hereinafter called the said rules), in the rule 2, in the marginal heading, for the word “Definition”, the word “Definitions” shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 7, in the fifth line, after the words “the date on which”, the words “and the place where” shall be inserted.
4. In the said rules, for rule 43, the following rule shall be substituted, namely:-  
“43. Demand statement (Khatauni) to be accessible to villagers. Section 65.- The demand statement (Khatauni) with the Patwari of the village shall be opened at such place, date and time as may be specified by the Patwari for inspection of the person who are liable to pay charges.”
5. In the said rules, in rule 75, for the words “two rupees”, the words “two hundred rupees” shall be substituted.
6. In the said rules, in rule 96, for the word “summons”, wherever occurring, the word “summon” shall be substituted.
7. In the said rules, in rule 109, for the words “the date and place”, the words and sign “the date, time and place” shall be substituted.
8. In the said rules, in rule 111, the following words shall be added at the end, namely:-  
“and shall be attested either by Lamberdar or Chowkidar of the village”.
9. In the said rules, in Form IV, for the figure “19”, occurring twice, the figure “20” shall be substituted.
10. In the said rules in Form V, for the figure “19”, the figure “20” shall be substituted.
11. In the said rules, in Form VI,-  
(i) for the figure “19”, occurring twice, the figure “20” shall be substituted; and  
(ii) for the words “Canal Station”, the words “Divisional Canal Officer” shall be substituted.

ANURAG RASTOGI,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Irrigation and Water Resources Department.